

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 183]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 29 मार्च 2010—चैत्र 8, शक 1932

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 29 मार्च, 2010 (चैत्र 8, 1932)

क्र. 7514-वि.स.-विधान-2010.—राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश दिनांक 29 मार्च, 2010 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

“संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (2) के उपखण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एतद्वारा इस राज्य की विधान सभा का सत्रावसान करता हूं.

भोपाल :
दिनांक 29 मार्च, 2010.

रामेश्वर ठाकुर
राज्यपाल,
मध्यप्रदेश.”

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.